





SBI PO 2021

REASONING | MATHS | ENGLISH

महा मैराथन

Exam Before Exam



14 Nov

•Live

08:00 AM



UPCOMING ONLINE BATCHES

November 2021

03 Nov 2021

10:30 AM to 12:30 PM

LIVE PREMIUM GREEN CARD
(BANK-PO & CLERK)

01:00 PM to 03:00 PM

LIVE PREMIUM GREEN CARD
(BANK-PO & CLERK)

05:30 PM to 07:30 PM

LIVE PREMIUM SILVER CARD
(SSC CGL & CHSL)

BILINGUAL

10 Nov 2021

03:00 PM to 05:00 PM

LIVE PREMIUM GREEN CARD
(BANK-PO & CLERK)

08:00 AM to 10:00 AM

LIVE PREMIUM SILVER CARD
(SSC CGL & CHSL)

BILINGUAL

17 Nov 2021

01:00 PM - 03:00 PM

IBPS SO PRE CRASH COURSE
(BANK-SO)

08:00 AM to 10:00 AM

LIVE PREMIUM GREEN CARD
(BANK-PO & CLERK)

05:30 PM to 07:30 PM

LIVE PREMIUM GREEN CARD
(BANK-PO & CLERK)

10:30 AM to 12:30 PM

LIVE PREMIUM SILVER CARD
(SSC CGL & CHSL)

BILINGUAL

24 Nov 2021

10:30 AM to 12:30 PM

LIVE PREMIUM GREEN CARD
(BANK-PO & CLERK)

07:30 PM to 09:30 PM

LIVE PREMIUM GREEN CARD
(BANK-PO & CLERK)

03:00 PM to 05:00 PM

LIVE PREMIUM SILVER CARD
(SSC CGL & CHSL)

BILINGUAL



SBI PO PRELIMS 2021




आठ व्यक्ति A, B, C, D, E, F, G और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से चार बाहर की ओर मुख करके कोनों पर बैठे हैं और शेष चार अंदर की ओर मुख करके मेज की भुजाओं पर बैठे हैं। H, C के बायें से दूसरे स्थान पर बैठा है। G, H के दायें से तीसरे स्थान पर बैठा है। E, G के बायें से दूसरे स्थान पर बैठा है। A, E के बायें से दूसरे स्थान पर बैठा है। B, टेबल की किसी एक मध्य भुजा पर बैठा है। B, E का निकटतम पड़ोसी नहीं है। D, F के बायें से दूसरे स्थान पर बैठा है।

Eight people A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a square table. Four of them are sitting at the corners facing outside and the remaining four are sitting at the sides of the table facing inside. H sits second to the left of C. G sits third to the right of H. E sits second to the left of G. A sits second from the left of E. B sits at one of the middle sides of the table. B is not an immediate neighbor of E. D sits second to the left of F.



Eight people A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a square table. Four of them are sitting at the corners facing outside and the remaining four are sitting at the sides of the table facing inside. H sits second to the left of C. G sits third to the right of H. E sits second to the left of G. A sits second from the left of E. B sits at one of the middle sides of the table. B is not an immediate neighbor of E. D sits second to the left of F.



How many people sit between H and A, when counting from the right of H?

- A. Two B. One C. Three D. More than three
E. None

Who sits to the immediate left of D?

- A. C B. G C. B D. H E. None of the above

.Find the odd one out? A. C B. G C. D D. H
E. F

Which of the following pairs is facing outside?

- A. D-B B. H-A C. F-C D. G-H E. None of the above

Who sits third to the left of F?


- A. B B. A C. G D. C E. None of the above



.If in a number 729645138, 1 is subtracted to each odd number and 1 is added to each even number then what is the product of third digit from the left and fourth digit from the right end, in the new arrangement?

यदि संख्या 729645138 में, अंक संख्या में 1 जोड़ दिया गया है और सम संख्या में 1 जोड़ा गया है, तो नई संख्या में, पंक्ति से अंक अंक और दायें अंक अंक का गुणनफल क्या है?

A. 45 B. 32 C. 54 D. 40 E. None of these

30

73. Statements:

Only a few Pod is Drive

Some Drive is Bond

All Bond is Flag

Conclusions:

I. All Drive is Flag

II. Some Pod are not Drive

A. Only I follows

B. Only II follows

C. Either I or II follows

D. Both I and II follow

E. Neither I nor II follows

Statements:

No Part is Cart

All Cart is Board

No Board is Gun

Conclusions:

I. Some Board is not Part

II. No Gun is Part

A. Only I follows

B. Only II follows

C. Either I or II follows

D. Neither I nor II follows

E. Both I and II follow

74. Statements:

All Ship is Gas
Only a few Gas is Hunt
No Hunt is Flash

Conclusions:

- I. Some Ship are Hunt
- II. No Ship is Hunt
- A. Only I follows
- B. Only II follows
- C. Either I or II follows
- D. Both I and II follow
- E. Neither I nor II follows

75. Statements:

Only a few Calt is Drill
All Calt is Pin
All Drill is Gross

Conclusions:

- I. All Drill being Pin is a possibility
- II. Some Gross are not Calt
- A. Only I follows
- B. Only II follows
- C. Either I or II follows
- D. Both I and II follow
- E. Neither I nor II follows

.How many such pairs of letters are there in the word 'HANDCRAFT' each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabet (both forward and backward)?

शब्द 'हैंडक्राफ्ट' में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला (आगे और पीछे दोनों) में हैं?

A. One B. Two C. Three D. More than three E. None

30

छह लोग अर्थात A, B, C, D, E और F एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मसूरी जा रहे हैं, जो तीन महीने की दो अलग-अलग तारीखों यानी मई, जून और जुलाई की 13 और 28 तारीख को आयोजित होता है। C 30 दिनों वाले महीने में कार्यक्रम में भाग लेता है। C और E के बीच दो व्यक्ति कार्यक्रम में शामिल होते हैं। E और A के बीच केवल एक व्यक्ति कार्यक्रम में भाग लेता है। B, A से पहले कार्यक्रम में शामिल होता है। B से पहले कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या F के बाद कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के समान है। D, F के बाद कार्यक्रम में शामिल होता है।

Six people i.e. A, B, C, D, E and F going to Mussoorie to attend an event, which is held on two different dates i.e. 13th and 28th of three months i.e. May, June and July. C attends the event in the month having 30 days. Two people attend the event between C and E. Only one person attends the event between E and A. B attends the event before A. The number of people attending the event before B is the same as the number of people attending the event after F. D attends the event after F.



Six people i.e. A, B, C, D, E and F going to Mussoorie to attend an event, which is held on two different dates i.e. 13th and 28th of three months i.e. May, June and July. C attends the event in the month having 30 days. Two people attend the event between C and E. Only one person attends the event between E and A. B attends the event before A. The number of people attending the event before B is the same as the number of people attending the event after F. D attends the event after F.

No. of days	Month	People
31	13 th May	E
31	28 th May	B
30	13 th June	A
30	28 th June	C
31	13 th July	F
31	28 th July	D

Who amongst the following attends the event on 28 July?

A. F B. C C. D D. A E. None of these

How many people attend the event before F?

A. Four B. Three C. One D. None E. Two

.B was born in which of the following dates?

A. July 13th B. May 28th C. June 28th D. July 28th E. None of the above

Who among the following attend the event between B and C?

A. D B. E C. A D. F E. None of these

.Who amongst the following attends the event before B ?

A. C B. F C. E D. D E. None of the above



If it is possible to make a meaningful word from the 1st, 3rd, 9th and 11th letters of the word AGGREGATION, then which will be the third letter from the left of that word? Mark X if no such word can be formed and mark Y if more than one such word can be formed.

यदि शब्द AGGREGATION के पहले, तीसरे, नौवें और ग्यारहवें अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है, तो उस शब्द के बायें से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? मार्क एक्स यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है और वाई एक से अधिक है तो ऐसे शब्द बन सकते हैं।

A. I B. A C. X D. Y E. N

There are six containers in a stack with different volumes. Every container has its volume in odd numbers only. Only C is heavier than E. F is not the lowest. A is heavier than F. Second lowest container volume is 15 and the volume of the second-highest container is 33. B is heavier than D but lighter than F.

एक स्टैक में अलग-अलग वॉल्यूम के साथ छह कंटेनर हैं। प्रत्येक पात्र का आयतन विषम संख्याओं में ही होता है। केवल C, E से भारी है। F सबसे छोटा नहीं है। A, F से भारी है। दूसरे सबसे कम कंटेनर का आयतन 15 है और दूसरे सबसे बड़े कंटेनर का आयतन 33 है। B, D से भारी है लेकिन F से हल्का है।

C > E > A > F > B > D
(33) (15)

Who amongst the following attends the event on 28 July?

A. F B. C C. D D. A E. None of these

How many people attend the event before F?

A. Four B. Three C. One D. None E. Two

B was born in which of the following dates?

A. July 13th B. May 28th C. June 28th D. July 28th E. None of the above

30

6 person, "A, B, C, D, E, F" goes for a movie on 6 different days from Monday to Saturday. A goes 2 days after D but before Friday. There is a 3 days gap between C and E. B goes on Saturday. F goes immediately before A. Who goes on Wednesday?

6 व्यक्ति, "ए, बी, सी, डी, ई, एफ" सोमवार से शनिवार तक 6 अलग-अलग दिनों में एक फिल्म के लिए जाता है। A, D के 2 दिन बाद लेकिन शुक्रवार से पहले जाता है। C और E के बीच 3 दिन का अंतर है। B शनिवार को जाता है। F, A के ठीक पहले जाता है। बुधवार को कौन जाता है?

- 1) E 2) B 3) D 4) F 5) A

In a number '85214796' if 2 is added to all odd numbers and 1 is subtracted from all even numbers, then what will be the difference between the first digit from left end and the first digit from the right end?

एक संख्या '85214796' में यदि सभी विषम संख्याओं में 2 जोड़ा जाता है और सभी सम संख्याओं में से 1 घटाया जाता है, तो बाएं छोर से पहले अंक और दायें छोर से पहले अंक के बीच का अंतर क्या होगा?

- 1) 7 2) 6 3) 5 4) 2 5) 3

In the given word 'EXPATRIATE' if the vowels are changed to the next letter and the consonants are changed to the previous letters as per the alphabetical series, then which letter/letters are re-peated more than once?

दिए गए शब्द 'EXPATRIATE' में यदि स्वरों को अगले अक्षर में बदल दिया जाता है और वर्णानुक्रम के अनुसार व्यंजन को पिछले अक्षरों में बदल दिया जाता है, तो कौन से अक्षर/अक्षरों को एक से अधिक बार दोहराया जाता है?

1) J, O

2) O, Q

3) W 4) Q, J

5) B, F, S

आठ व्यक्ति A, B, C, D, E, F, G, और H हैं, जो मंजिल 1, मंजिल 2, मंजिल 3 और मंजिल 4 के बीच चार अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। प्रत्येक मंजिल में दो अलग-अलग फ्लैट हैं। फ्लैट 1 और फ्लैट 2) प्रत्येक मंजिल पर फ्लैट 1-फ्लैट 2 बाएं से दाएं इस तरह से हैं कि चौथी मंजिल का फ्लैट 1 तीसरी मंजिल के फ्लैट 1 के ठीक ऊपर है और तीसरी मंजिल का फ्लैट 1 बिल्कुल ऊपर है दूसरी मंजिल का फ्लैट 1 और अन्य फ्लैट उसी तरह स्थित हैं। C उस मंजिल के ऊपर एक मंजिल पर रहता है जिस पर B रहता है। F, B के साथ रहता है जो D से दो मंजिल नीचे रहता है। B दूसरी मंजिल पर रहता है। E पहली मंजिल के फ्लैट 2 में रहता है। G तीसरी मंजिल पर रहता है लेकिन फ्लैट 1 में नहीं। H चौथी मंजिल पर नहीं बल्कि फ्लैट 1 में रहता है। B सम संख्या वाले फ्लैट में रहता है। A और C फ्लैट 1 में रहते हैं लेकिन अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं।

There are eight persons A, B, C, D, E, F, G, and H, who live on four different floors among floor 1, floor 2, floor 3 and floor 4. Each floor has two different flats viz. flat 1 and flat 2) There are 2flats on each floor flat 1 –flat 2from left to right in such a way that flat 1 of the fourth floor is exactly above flat 1 of the third floor and flat 1 of the third floor is exactly above flat 1 of the second floor and other flats are situated in the same way.C lives one floor above the floor on which B lives. F lives with B who lives two floors below D. B lives on the second floor. E lives in flat 2 of the first floor. G lives on the third floor but not in flat 1. H does not live on the fourth floor but in flat 1. B lives in even numbered flat. A and C live in flat 1 but on different floors.



There are eight persons A, B, C, D, E, F, G, and H, who live on four different floors among floor 1, floor 2, floor 3 and floor 4. Each floor has two different flats viz. flat 1 and flat 2) There are 2flats on each floor flat 1 –flat 2from left to right in such a way that flat 1 of the fourth floor is exactly above flat 1 of the third floor and flat 1 of the third floor is exactly above flat 1 of the second floor and other flats are situated in the same way.C lives one floor above the floor on which B lives. F lives with B who lives two floors below D. B lives on the second floor. E lives in flat 2 of the first floor. G lives on the third floor but not in flat 1. H does not live on the fourth floor but in flat 1. B lives in even numbered flat. A and C live in flat 1 but on different floors.

	Flat1	Flat2
Floor4	A	D
Floor3	C	G
Floor2	F	B
Floor1	H	E

who live in the flat 1 of floor 2?

- 1) B 2) C 3) F 4) A 5) G

Who lives two floor below the floor on which G lives in the same flat number?

- 1) A 2) F 3) C 4) E 5) None of these

Who lives on the same floors?

- 1) H and G 2) F and B 3) C and B 4) E and D
5) None of the above

Who live on the fourth floor of flat 2? 1) H 2) C 3) A
4) E 5) D

Which of the following given pair is different from rest?

- 1) H and C 2) G and E 3) C and F 4) E and G
5) B and D


सात व्यक्ति A, B, C, D, E, F और G एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों। प्रत्येक की अलग-अलग आयु (वर्षों में) है, अर्थात् 4, 15, 17, 19, 21, 23 और 40 लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। वह व्यक्ति जिसकी आयु 19 वर्ष है, C और F के बीच में बैठा है। F, E के दायें से तीसरे स्थान पर बैठा है, जिसकी आयु B से 6 वर्ष अधिक है। A, B के ठीक बाएं बैठा है, जिसकी आयु 5 का गुणज है, लेकिन नहीं 20 से अधिक। F की आयु, E और G की आयु का योग है। केवल एक व्यक्ति है जो F के ठीक दायें बैठा है। C जिसकी आयु दो अंकों की अभाज्य संख्या है, उस व्यक्ति के दायें से तीसरे स्थान पर बैठा है जिसका उम्र 4 साल है। D की आयु G की आयु से दो वर्ष कम है।

There are seven persons A, B, C, D, E, F and G sitting in a row facing north direction but not necessarily in the same order. Each one has a different age (in years), i.e., 4, 15, 17, 19, 21, 23 and 40 but not necessarily in the same order. The person whose age is 19 years is sitting between C and F. F is sitting 3rd to the right of E whose age is 6 years more than that of B. A sits just immediately left of B whose age is a multiple of 5 but not more than 20. Age of F is the sum of the ages of E and G. There is only one person who sits to the immediate right of F. C whose age is a two digit prime number sits 3rd to the right of the person whose age is 4 years. Age of D is two years less than the age of G.



There are seven persons A, B, C, D, E, F and G sitting in a row facing north direction but not necessarily in the same order. Each one has a different age (in years), i.e., 4, 15, 17, 19, 21, 23 and 40 but not necessarily in the same order. The person whose age is 19 years is sitting between C and F. F is sitting 3rd to the right of E whose age is 6 years more than that of B. A sits just immediately left of B whose age is a multiple of 5 but not more than 20. Age of F is the sum of the ages of E and G. There is only one person who sits to the immediate right of F. C whose age is a two digit prime number sits 3rd to the right of the person whose age is 4 years. Age of D is two years less than the age of G.

(4 years) (15 years) (21 years) (23 years) (19 years) (40 years) (17 years)



How many people sit between A and D?

- 1) 5 2) 4 3) 3 4) 2 5) None of the above

What is the age of F?

- 1) 21 years 2) 40 years 3) 17 years
4) 15 years 5) 19 years

Which of the following is correct?

- 1) A sits third to the right of C
2) Age of F is 19 years
3) Sum of the age of A and B is same as that of G
4) Only one person sits between F and D.
5) Age of C is not a prime number.



Four of the following are alike in a certain way and so form a group. Which of the following does not belong to the group?

- 1) BC 2) GD 3) GE 4) AE 5) CF

Which of the following is correct?

- 1) A sits third to the right of C
- 2) Age of F is 19 years
- 3) Sum of the age of A and B is same as that of G
- 4) Only one person sits between F and D.
- 5) Age of C is not a prime number.

(4 years) (15 years) (21 years) (23 years) (19 years) (40 years) (17 years)

